#### MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17124MP1991PLC006324

Registered Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur M.P. 458001 IN Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore 452003(M.P.) Tel. 07422-234999; Email id- csmidindia@gmail.com, Website:www.midindiaindustries.com

Date: 31st May, 2023

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: - Submission of Copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Audited Financial Results for the Quarter and year ended  $31^{\rm st}$  March, 2023.

Ref:- MID INDIA INDUSTRIES LTD (BSE Script Code: 500277, ISIN: INE401C01018)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Extracts of Audited Financial Results for Quarter and year ended 31st March, 2023 published in News Paper i.e. Free press Mumbai & Indore (in English) and Choutha Sansar (in Hindi) & Nav Shakti Mumbai on 31st May, 2023.

You are requested to please take the same on record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
FOR MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

CS SHAILENDRA KUMAR AGRAWAL COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER FCS-12104

# Opposition 'together' at national level: Mamata

Says party has some obligations in state after Cong MLA joins TMC

ARITRA SINGHA / Kolkata

At a time when Congress Rajya Sabha MP Jairam Ramesh slammed Trinamool Congress (TMC) for poaching lone Congress MLA Bayron Biswas, Chief Minister Mamata Banerjee said that all the opposition parties are 'together' at national-level.

"All opposition parties are together nationally. In the state, the party has some own obligations. TMC had just contested elections in Meghalaya and Goa. But we have supported Congress when they had contested in Gujarat, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh," said Ma-

Following defection of the Left Front-supported Congress MLA in West Bengal to TMC on Monday, there were a lot of speculations about the all-party opposition meeting in Patna on June 12 where TMC and Congress are also likely to participate. Mamata



West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee addresses a press conference at Nabanna, in Howrah, on Tuesday

however, mentioned that she had learnt about the defection only from the media.

Talking to the media, The West Bengal Chief Minister confirmed that she will attend the meeting in Patna.

Taking to Twitter earlier, Congress leader Jairam Ramesh said, "Three months after he was elected as a Congress MLA in a historic victory, Bayron Biswas has been

lured away by the TMC in West Bengal. This is a complete betrayal of the mandate of the people of the Sagardighi Assembly constituency. Such poaching, which has happened earlier in Goa, Meghalaya, Tripura and other states, is not de-

tion unity and only serves the BJP's objectives. State Congress president

signed to strengthen Opposi-

Adhir Ranjan Chowdhury, however, claimed that TMC is 'working at the behest of

"Ahead of 2024 elections, BJP is again playing with NRC and TMC also will try to seek votes by befooling the minorities."

Chowdhury. Meanwhile, taking a dig at Union Home Minister Amit Shah, Mamata said that he had visited Manipur after several lives were lost. "On Monday, I had written a letter to the Home Ministry seeking permission to visit Manipur for a day. After I wrote the letter, the Home Minister went to Manipur. We are all waiting to know the death toll. But I don't think Amit Shah will meet the peace loving people of Manipur," further mentioned Mamata.

The West Bengal Chief Minister also claimed that she will support whichever movement is taken by the wrestlers in the national cap-

## WB govt, Guv tussle over new **State Election** Commissioner

ARITRA SINGHA / Kolkata

Questions are being raised after Governor CV Ananda Bose didn't appoint a new election commissioner even though the term of former state election commissioner Sourav Das has expired.

Talking to the media, the West Bengal Governor said that "the decision will be taken at appropriate time.'

However, Bose didn't mention any deadline for deciding the new name.

According to Governor House sources, after the state government had given a name, Governor sought a second name and then a third proposed name from the state government.

Chief Minister Mamata Banerjee said the state government had been pursuing this issue much before the commissioner's term got over.

The left Front, however, has held the state government responsible for the situation while the Congress said the Governor will have to release the name soon.

### citizen to enrol with BCD The BCI also claimed that if the petitioner is enrolled, it would

Delhi HC allows Korean

The Delhi High Court on Tuesday granted permission to a South Korean national seeking to enrol as an advocate in India. Justice Yashwant Varma pronounced the order on Daeyoung Jung's plea and directed the Bar Council of India (BCI) to allow his application for enrolment with the Bar Council of Delhi (BCD).

Justice Varma said: "The position which emerges is while duly qualified citizens of India are undoubtedly entitled to apply for enrolment, the rights of foreign nationals are made contingent upon the state bar council being satisfied that Indian nationals are conferred an identical right to pursue legal profession in that coun-

"In the absence of a nationality restriction clause being found to exist in a foreign nation, its citizens would be entitled in law to apply for enrolment, subject of course to them being compliant with the other parts of Section 24.

The petitioner had approached the high court

pave the way for entry of people of foreign origin into the Indian Bar, which is

after both BCD and BCI had rejected Jung's application and representation for enrolment, respectively.

unprecedented

It was Jung's case that he owns a degree in law from an Indian institution and therefore BCI's decision to not enrol him as an advocate on the rolls of BCD was wrong, the court said.

On the other hand, BCI's stand was that once the petitioner is enrolled as an advocate and happens to engage in professional misconduct, no action can be taken against him if he leaves the Indian territory

stated that when an Indian national is allowed to practise in Korea after obtaining a degree in that country, as per Section 24 of Advocates Act, a Korean citizen should also be allowed to practise in India after studying in India.

As long as the right of the citizens of India who hold the requisite qualification to practise law in a foreign nation is preserved and no discriminatory measures are adopted in the foreign nation, the nationals of that country would clearly be entitled to seek enrolment in terms of the proviso to Section 24(1)(a), the court noted

The BCI also claimed that if the petitioner is enrolled, it would pave the way for entry of people of foreign origin into the Indian Bar, which is unprecedented.

The foreign national had moved to India with his parents at the age of 11 and lived here continuously till he graduated from NALSAR University in 2016.

# After meeting Kharge, Gehlot expresses confidence in Pilot

MANISH GODHA / Jaipur

A day after meeting Congress Mallikarjun president Kharge, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Tuesday said that he hoped to work together with former Chief Minister Sachin Pilot in an effort to resolve the political crisis in the

Talking to the media in Delhi on Tuesday morning, Gehlot said, "If he (Pilot) is in the party, then why won't he work together?"

He was responding to a question when asked if he and Pilot will work together in Rajasthan.

When he was counterquestioned as to what would be Pilot's role, Gehlot said

that the role is to be decided by the high command. "Post doesn't matter to me. I have been the chief minister thrice and have left no stone unturned to work. Now it is my duty to work in the direction of ensuring that our government gets repeated in the state. The high command also wants the same," said Gehlot.

Confident about the success of his schemes, Gehlot said, "I have made many schemes for the public, I think the government will repeat this time, although the public is Mai-Baap when I meet people, it seems we will repeat the government.

Every class is taken care of." "You win trust by giving trust. If everyone will work together then our govern-

Date: 29.05.2023



You win trust by giving trust. If everyone will work together then our govt will be repeated. If you will remain loyal to the party then as Sonia Gandhi had said in the convention that the one who keeps patience gets chance someday

-Ashok Gehlot

ment will be repeated. If you will remain loyal to the party

then as Sonia Gandhi had said in the Convention that the one who keeps patience gets a chance someday," he added. In the meantime, Sachin Pilot also returned to Jaipur on Tuesday but no reaction came from his side. His supporters also kept mum.

Notably, party general secretary KC Venugopal had claimed that both Gehlot and Sachin Pilot will work together in the elections and have agreed to go with the decision of the party's high command.

However, despite Monday's political ceasefire, it is still in dark as to what will be the stand of the party on the three demands of Pilot and what role will he assume in the party as no formula has

# BJP MP alleges 'veteran leader' not returning his money

FPJ BUREAU / Ahmedabad

The ruling BJP's Rajya Sabha member from Gujarat, Rambhai Mokariya, who owns the state's only courier firm which delivers even to remote towns, has claimed a veteran political leader took crores of rupees from him but has not repaid it despite several requests.

In a Facebook post, Mokariya says the veteran political leader handled several portfolios in Gujarat in the

The post by the Rajya Sabha member, who hails from Rajkot district, has sparked off speculations that

he is referring to a senior BJP leader who retired from his last assignment outside Gujarat recently. In his post, which has gone viral, Mokariya said, "He is a very old politician and has retired recently from his assignment outside Gujarat. The leader is a millionaire but his intentions are bad and is not returning my money.' When contacted, Mokariya

told the Free Press Journal, "I have written what I had to, the matter is over, there's nothing more." Asked if he meant he got the money by saying "the matter is over", he laughed and said, "I am saying I have nothing new to tell you.

		(F	Rs. In Lakh excep	pt Earning per sh	are)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.23	Quarter Ended 31.12.22	Year Ended 31.03.23	Year Ended 31.03.2
		Audited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	966.73	955.66	3,864.54	3,472.0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	99.82	109.41	377.23	367.4
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	100.62	108.60	377.18	372.7
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	56.42	108.60	332.98	301.2
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	57.51	108.60	334.06	307.7
6	Equity Share Capital	1,090.30	1,090.30	1,090.30	1,090.2
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			(341.22)	(675.28
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for Continuing and discontinued Operations) a). Basic : b). Diluted:	0.53 0.53	1.00	3.06 3.06	2.8 2.8

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED

and Company's website www.raajmedisafeindia.com. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable and the Statutory Auditors have carried out Audit of the same and issued their unmodified opinion thereon. 3. The Audited Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors of Company held on 29th May, 2023. 4. Previous year's figures have been regroupedire arranged, wherever necessary. 5. Exceptional and/or Extraordinary items, if any, adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules. 6. The Sales of Alluminium Segment is not falling under the provisions of Segment reporting, therefore, segment reporting is not applicable for the Quarter/Year ended March 31, 2023.

SIMRAN FARMS LIMITED CIN: L01222MP1984PLC002627

Regd. Office: 1-B, Vikas Rekha Complex, Khatiwala Tank, Tower Square, Indore (M.P.) 452001

Phone: 0731-4255900, Fax: 0731-4255949, Website: www.simranfarms.com, Email: compliance@simranfarms.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED ON MARCH 31, 2023 { REGULATION 47(1)(B) OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 }

Amount In Lakhs (Except Earnings per share									
	STANDALONE CONSOLIDA					DATED			
	Quarte	r Ended	Year Ended	Quarte	r Ended	Year Ended			
Particulars		31-Mar-2022 (Unaudited)	31-Mar-2023 (Audited)		31-Mar-2022 (Unaudited)	31-Mar-2023 (Audited)			
Total income from operations (net)	10328.36	8495.65	36726.87	10328.36	8495.65	36726.87			
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	684.93	-223.50	296.56	688.69	-240.95	309.82			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	684.93	43.02	335.57	689.45	25.01	349.59			
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	600.54	416.68	349.26	603.50	388.19	359.84			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	592.23	415.83	340.95	594.68	392.52	349.70			
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17			
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	2639.40	0.00	0.00	2707.10			
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)									
Basic : (in Rs.)	15.84	10.99	9.21	15.90	10.38	9.44			
Diluted: (in Rs.)	15.84	10.99	9.21	15.90	10.38	9.44			
Note: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results	for the Quart	er and Year e	nded March 31	2023 filed w	ith the Stock	exchange			

Note: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 are available on the website of the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the website of the Company

Place: Indore Date: 29-May-2023 Harender Singh Bhatia (Managing Director) DIN: 00509426

Rescue teams lift the wreckage of the ill-fated bus out of a gorge at Jhajjar Kotli area in Jammu district on Tuesday -PTI

#### ₹2L for J&K bus mishap victims

LAW KUMAR MISHRA / Patna

Bihar Chief Minister Nitish Kumar mourned the death of ten people, including two children, who were killed in a road accident on Jammu-Katra highway early on Tuesday. Kumar also announced ex-gratia of Rs2 lakh each to the families of victims who belonged to Koriya village in Lakhisarai

JDU national president Rajiv Ranjan Singh talked to Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and requested him to send the bodies by

plane to Patna. Villagers from Koriya had gone to Amritsar by Akal Takht Express for tonsuring of three children of Mukesh Sharma, said Rambriksh Sharma, father of Mukeshin Amritsar.

### Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

> Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on March 31, 2023

S.   Particulars   Quarter Ended   Year to Date F Current Period   31.03.2023   31.03.2022   31.03.202   31.03.2022   31.03.2023   31.03.2022   31.03.2022   (Audited)   (Au			(Amount In Lakhs Except EPS)	
S.		Quarte	Ended	Year to Date Figures for Current Period Ended
	Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income From Operations (Net)	383.52	955.02	1469.27
2		29.31	40.77	104.03
3		-16.91	40.77	57.81
4		-18.10	19.83	44.96
5	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax)	-20.28	20.14	42.78
6	Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-		-2038.37
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)  1. Basic  2. Diluted	-0.12 -0.12	0.12 0.12	0.26 0.26

Note: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 is available on the website of the Company **www.midindiaindustries.com** and stock For Mid India Industries Limited

Sd/-Sanjay Singh, Chairman & Managing Director DIN: 01548011

website: www.ppplonline.com

PITHAMPUR POLY PRODUCTS LIMITED Regd. Office: 115, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar 454775 277/78 Email: headoffice@ppplonline.com website: www.ppplonlin CIN L25202MP1994PLC008513

	Quarte	r Ended	Year I	(₹ In Lakh) Ended
PARTICULARS	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.202
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations (Net)	27.54	18.07	72.54	63.07
Net Profit/ (Loss) before tax and Exceptional and/or Extraordinary items	-26.14	-33.75	-7.86	-60.33
Net Profit/ (Loss) after Exceptional and/or Extraordinary items and before tax	-26.14	-33.75	-7.86	-60.33
Net Profit/ (Loss) after tax and Exceptional and/or Extraordinary items	-20.75	-59.08	-2.69	-74.79
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-20.75	-59.08	-2.69	-74.79
Equity Share Capital (Face Value of share is Rs. 10/- Each)	487.40	487.40	487.40	487.40
Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)	- 20	2	-	_
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (of Rs. 10/- each)				
Basic (in Rs.):	-0.43	-1.21	-0.06	-1.53
Diluted (in Rs.):	-0.43	-1.21	-0.06	-1.53

(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended Financial Results of 31st March 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format of the Quarterly/ Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company website (www.ppplonline.com)

(b) The detailed financial results and these extracts were reviewed and taken on record by Board of Directors in its meeting held on 30th May 2023. Also Audit Report have been carried out by the statutory Auditor of the company

c) There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and Year ended on 31st March 2023. d) The company has a single operated segment viz. "PP Woven Sacks"

(e) These financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other ounting principles generally accepted in India. For and on behalf of Pithampur Poly Products Limited

R.K. Tekriwal, Managing Director DIN 00011492 Date: 30th May 2023 Place: Indore

## Silver Oak (India) Limited

CIN: L11531MP1984PLC002635

Regd. Off. & Works: Plot No.110, Sector-I, Industrial Area, Pithampur-454775, Dist. Dhar (M.P.) Phone: 07292-403170, Email: silveroak.indore@gmail.com

Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st March, 2023

STANDALONE

Particulars	3 Months Ended (31.03.2023)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2022)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2022) in the Previous Year	3 Months Ended (31.03.2023)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2022)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2022) in the Previous Year	
Total Income from Operations (net)	0.19	2.03	0.23	91.39	113.25	104.84	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(140.45)	(37.11)	35.48	(126.37)	27.70	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.48	(106.90)	47.17	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.65	(109.91)	44.16	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.65	(109.91)	44.16	

379.02

(655.18)

(3.19)

(655.18)

(0.47)

(776.16)

## b) Diluted (not to be annualized)

1 Total Inco 2 Net Profit

3 Net Profit (after exc

4 Net Profit

6 Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/-)

Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year

Earning Per Share (before extraordinary items)

The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 30th May, 2023 and thereafter taken on record by the Board of Directors at their

The detailed format of Quarterly Financial Results had been filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange

http://www.bseindia.com/ and the listed entity http://silveroakindia.co.in/. #- Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules. Whichever is applicable

Place: Indore

510.71

0.21

For and on behalf of SILVER OAK (INDIA) LIMITED

625.05

(3.02)

Shirish Jaltare Leela Kalyani Whole Time Director Director (DIN: 00070935) (DIN: 06625369)

(₹ in Lacs)

379.02

625.05

0.70

सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

# कैबिनेट के फैसलों में दिखी चुनावी तैयारी एससीएसटी उद्यमियों को सरकार देगी आर्थिक पैकेज

#### जंगली जानवरों के हमले में मौत पर परिवार को मिलेंगे ८ लाख

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों पर मेहरबान है। प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, इसके लिए सरकार 18-18 लाख रुपए की 4 किश्तों में राशि उपलब्ध कराएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इसके लिए मप्र स्आर्टअप नीति एवं कार्यावयन योजना 2022 में संशोधन प्रस्वाव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब अगर जंगली जानवर के हमले में व्यकित की मौत हो जाती है। तो उसके परिजनों को 8 लाख

बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणियों के हमले में मौत पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढोत्तरी कर दी गई. अभी वन्य प्राणी से हमले में मौत पर

4 लाख रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के नवीनीकरण और आधुनिकीरण के लिए 85.35 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। ग्रिड में सधार, पॉवर सिस्टम, डेवलपमेंट में यह राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कलाकार कोष के माध्यम से कलाकारों की गंभीर बीमारी आदि में दी जाने वाले सहायता राशि में बढोत्तरी की है। अभी यह राशि 5 हजार और 10 हजार रुपए निर्धारित थी। जिसे बढाकर 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह कोष प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।

मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6474 पदों को निरंतर किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजुरी दे दी। मध्यप्रदेश के दमोह में मेडिकल कॉलेज खालने को कैबिनेट में मंजुरी दे दी गई। इसके लिए राज्य सरकार ने 266.70 करोड़ के बजट को स्वीकृत किया गया है। इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इसकी संख्या को आगे बढाया भी जाएगा।

श्री महाकाल लोक में नहीं हुआ भ्रष्टाचार कांग्रेस के आरोप निराधार—भूपेन्द्र सिंह भोपाल,(निप्र)। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषियों में से 6 मर्तियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले में सरकार ने इसे बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट दे दी। सरकार की ओर से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि

तत्यों पर बात करें। गंदी राजनीति न करें। नगरीय प्रसासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि महाकाल लोक बनाने का निर्णय शिवराज सरकार ने साल 2017 में लिया था। उसके लिए 100 एकड

जमीन का अधिग्रहण किया गया।

महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार

नहीं हुआ। उज्जैन के कमिश्नर

की रिपोर्ट में आंधी की वजह से

मर्तियां गिरी हैं। एक सप्ताह में

फिर मुर्तियां लग जाएंगी। कांग्रेस

उसमें से अतिक्रमण भी शिवराज सरकार ने हटाए। महाकाल लोक में टेंडर भी हमारे समय हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। वर्क आर्डर और सवा साल का काम कांग्रेस की सरकार के दौरान का है। तब मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री कांग्रेस के थे। मंत्री भपेंद्र सिंह ने कहा कि महाकाल लोक का पुरा काम गुणवत्ता के हिसाब से ही हुआ है। दिल्ली की संस्था सीपेट ने तकनीकी परीक्षण किया और टेक्नीकल टीम ने मुल्यांकन किया। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कई अन्य राज्यों में एफपीआई की मुर्तियां लगाई गई हैं। पत्थर की मूर्तियों में समय अधिक लगता है। महाराष्ट्र के पंढरपर, दिल्ली स्थित किंगडम आफ डीम, अक्षरधाम मंदिर, कुरुक्षेत्र, सिक्किम, अक्षरधाम आदि में इस तरह की मुर्तियां चित्रकला के लिए उपयोग की जाती है।

#### कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आस्था साख सहकारी संस्था मर्या. निसरपुर तह. कुक्षी - जिला धार

पंजीयन क्रमांक/JR/DR/1492, दिनांक 08-01-2014

सदस्यता - सूचि प्रथम प्रकाशन की सूचना

आस्था-साख सहकारी संस्था मर्यादित - निसरपुर- के संचलक मंडल के निर्वाचन हेतु - संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई, सदस्यता- सूचि का प्रथम-प्रकाशन दिनांक 30-05-2023 को संस्था के नोटिस बोर्ड पर - उप पंजीयन जिला धार. विकास खण्ड - निसरपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या.धार शाखा. निसरपुर एवं प्रत्येक सदस्य को डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गई है, सदस्य-सुचि के सम्बन्ध में यदि किसी सदस्य को आपत्ति प्रस्तुत करना है तो दिनांक 07/06/2023 तक संस्था कार्यालय में मेरे द्वारा-अधिकृत श्री सुखदेव पाटीदार - शाखा प्रबंधक को कार्यालयीन समय प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियों का निराकरण दिनांक 8.06.2023 के समय दोपहर 1 बजे संस्था कार्यालय पर किया जावेगा।

डी. एस. निगम अध्यक्ष आस्था,साख सहकारी संस्था मर्या. सहकारी निरिक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आस्था साख सहकारी संस्था सिरपुर तह. कुक्षी जिला धार (म. प्र.)

### जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा नालछा धार द्वारा प्राप्त जानकारी एवं निदेशीनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा भावी ऋणी शुभम पिता श्री राधेश्याम गुर्जर निवासी ग्राम नालछा तह. व जिला धार को उनकी मालकी के आवासीय भुखण्ड / खण्डहर ग्राम आबादी नालछा प.ह.न. 81 / 164 की ग्राम आबादी सर्वे कं. 779 तह. पिथमपुर, जिला धार ग्राम पंचायत की सीमा के वार्ड क्रं. 18 ग्राम नालछा में कुल 2040 वर्ग फिट को बंधक रखकर उस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवासीय भखण्ड खण्डहर प्रस्तावित ऋणी की पैत्रक संपत्ति होकर पारिवारीक बंटवारे में उसे रजिस्टर्ड हकत्याग दस्तावेज कं. एमपी 119002023ए11789646 दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या वित्तिय संस्था, विधिक वारिस, बंटवारा या बंधक बाबद कोई आपत्ति हो तो वह 07 दिवस के अंदर संलिखित प्रमाण के मेरे कार्यालय में संपर्क करें । अन्यथा बाद मियाद मेरे पक्षकार द्वारा प्रस्तावित ऋणी की उक्त संपत्ति को बंधक रखकर उस पर ऋण प्रदाय कर दिया जावेगा ।

> भवदीय, अभय रावत एडवोकेट

9, सुन्दरवन कालोनी, गीत गार्डन के पास, धार मोबाईल नंबर - 94245-80562,

# नजर

रुपये सरकार देगी। इसी के साथ कैबिनेट की

#### एक ही मंडप में 249 विवाह और निकाह मुख्यमंत्री ने नव विवाहिताओं का शुभाशीर्वाद दिया

विदिशा,(निप्र)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के तहत मंगलवार को सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लटेरी व सिरोंज दोनों विकासखंडों में एक साथ सामुहिक वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। मख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने नव विवाहिताओं को वर्तुअल संवाद कर शुमाशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्रता श्रेणी में 23 वर्षीय नव विवाहिताओं को लाभ दिलाए जाने से आश्वस्त कराया। सिरोंज एवं लटेरी दोनों स्थलीय वैवाहिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के लाइव उद्बोधन को देखने सुनने के प्रबंध पूर्व में ही सुनिश्चित किए गए थे। सिरोंज के सीएम राईज स्कूल परिसर में आयोजित सामुहिक वैवाहिक कार्यक्रम को संबोधित करते हए करवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश के हर वर्ग के लिए नई-नई योजनाओं का सुत्रपात कर रहे हैं। ताकि कोई वर्ग योंजना के लाभ से वंचित ना रह सके। मुख्यमंत्री जी ने हर समाज के नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रदेश में जो नवाचार किए हैं उसका अनुसरण अन्य राज्य भी कर रहे हैं। उन्होंने नवीनतम योजना मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर भी गहन प्रकाश डाला। नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि मामा की प्यारी मांजियों उनकी देखमाल सभी वर्ग अच्छे से करेंगे। उनका जीवन

#### कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मांगी गृहमंत्री से सुरक्षा

नव वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया है।

खुशहाल, मंगलमय हो ऐसी शमकामनाएं

सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा

कि मख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने स्वयं

उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई हैं।

भोपाल,(निप्र)। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए और कांग्रेस से निष्कासित किए गए वीरेन्द्र बिहारी शुक्ला गुहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को फोन लगाकर रो दिए। उन्होंने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को फोन कर कहाँ कि उन्हें कांग्रेसियों द्वारा फंसाया जा सकता है। इस मामले में उन्होंने गृहमंत्री से मदद मांगी। गृहमंत्री ने उन्हें पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेता वीरेन्द्र बिहारी शुक्ला ने गहमंत्री को फोन कर कहा कि उनका फर्जी पोस्ट वायरल कराकर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पत्नी और पिता भोपाल में ही हैं। वे आपसे मिलकर पुरा घटनाक्रम सामने रखेंगे। उन्होंने गृहमंत्री से मदद मांगी। गृहमंत्री ने कहा कि वे घबराएं नहीं। उन्हें पूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। एक दिन पहले पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने थाने पहंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग उनका चरित्र हनन का प्रयास कर रहा है। मेरे परिवार की छवि को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है।

#### नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **मुकेश धनराज** वाधवानी पिता धनराज वाधवानी था। जो अब परिवर्तित होकर **मुकेश** वाधवानी पिता धनराज वाधवानी हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे ।

मुकेश वाधवानी पिता धनराज वाधवानी 203, चांदनी अपार्टमेंट 2/2, न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.)

#### वार्ड 18 में बनेगा आरसीसी नाला, हुआ भूमिपूजन

आष्टा.(निप्र)। नगरपालिका द्वारा अपने नगर के नागरिकों को मलभत सविधाएं महैया कराने में भरसक प्रयासरट् है। प्रत्येक वार्ड में जहां-जहां नागरिकों को असुविधाएं हो रही है, वहां त्वरित मौका मुआयना कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी के चलते वार्ड क्रमांक १८ में आरसीसी नाला निर्माण कार्य का मुमिपुजन संपन्न हुआ। इस आशय के विचार नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकंवर मेवाडा की अध्यक्षता में आयोजित मिमपजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रतिनिधि रायसिंह मेवाडा ने व्यक्त किए।

#### कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 175/अ.क.री./का.से./2023 :: विज्ञाप्ति ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों) का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम

	रेया तहसील-सांवेर जिल की अनुज्ञा दी जाती हैः—		प्र भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित
अ. क्र.	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में  बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1.	आवेदक मेसर्स मिलेनियम इन्फ्रा तर्फे पार्टनर श्री अरूण कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री शिवप्रसाद मिश्रा, पताः 109, शगुन आकॅड, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) कॉलोनी का नाम ''मिलेनियम टाउन फेस-1''	23/2	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179092 022ए1857506 इंदौर दिनांक 22.08.2022 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179092023ए 11346477 इंदौर दिनांक 10.01.2023 व संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179092023 ए11639698 इंदौर दिनांक 24.03.2023 से भूखंड क्रं. 4, 6 से 8 तक, 10 से 13 तक, 28, 32, 36, 41 से 49 तक, 51, 52, 55, 64, 65, 70, 73, 94, 102, 103, आर.सी. –01 से आर.सी. –05 इस प्रकार कुल 35 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3885.2 वर्गमीटर भूमें है।
பாசி-	ह कालम संबर-४ में उस्त	वेजिन २६ भागं न नम	कार्यात्म्य में धरोहर के क्या में बंधक रखे गरी है अन्

सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि उपरोक्त भुखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किय

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत) अपर कलेक्टर

Total income from operations (net)

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax

Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after ta and Other Comprehensive Income (after tax)]

Exceptional and / or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for Continuing and discontinued Operations)

**Equity Share Capital** 

Place : Ujjain Dated : 29.05.2023

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED

CIN - L33112MP1985PLC003039
REGD. OFFICE:75/2 & 3, INDUSTRIAL AREA, MAKSI ROAD, UJJAIN-456010

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER (YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Audited

99.82

100.62

57.51

0.53

b). Diluted:

0.53 | 1.00 | 3.06 | 2.82 |

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/yearly Financial Results flied with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/yearly Results is available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and Company's website www.raajmedisafeindia.com. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recopingred accounting practices and policies to the extent applicable and the Statutory Auditors have carried out Audit of the same and issued their unmodified opinion thereon. 3. The Audited Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors of Company held on 29th May, 2023. 4. Previous year's figures have been regroupedre-arranged, wherever necessary. 5. Exceptional and/or Extraordinary items, if any, adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules. 6. The Sales of Alluminium Segment is not falling under the provisions of Segment reporting, therefore, segment reporting is not applicable for the Quarter/Year ended March 31, 2023.

For & On behalf of Board of Directors For Raaj Medisafe India Limited

Unaudited 955.66

109.41

108.60

108.60

1.00

Audited 3,864.54

377.23

377.18

(341.22)

3.06

Audited 3,472.02

367.47

372.74

307.7

1,090.20

(675.28)

2.82

#### कल के लिए जल बचाए

#### Sam Industries Limited

CIN: L70102MP1994PLC041416 achiya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer,District-Indon Phone: 0091- 731- 4229717, Fax: 0731- 4229724 Website: www.sam-industries.com, Email: secretarial@sam-industries.cor Extract of Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st march, 2023

_				In Lakh except	per snare data
SI.	Particulars	For the Quarter Ended On	For the Quarter Ended On	Fin. Year Ended	Fin. Year Ended
no.	T di tiodidio	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1.	Total income from Operations	558.59	291.70	2553.73	940.00
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, Exceptional and Extraordinary Items	(85.20)	123.57	731.73	711.00
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items	(85.20)	123.57	727.26	711.00
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional & Extraordinary Items	(56.43)	115.69	539.91	595.83
5.	Total Comprehensive Income for the period	(56.43)	115.69	539.91	595.83
6.	Equity Share Capital	1108.85	1108.85	1108.85	1108.85
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet)		-	4588.48	4048.57
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing operations)				
	Basic:	(0.51)	1.04	4.87	5.37
	Diluted	(0.51)	1.04	4.87	5.37

# कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र)

क्रमांक /179/अ.क.री./का.से/2023

इन्दौर दिनांक 29/05/2023

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-धन्नड, तहसील-राऊ, जिला-इन्दौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ	कालानाइजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिय विकास	धराहर क रूप म बंधक रख
क्र.		अनुमति जारी की गई है	गये भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स एस.एम.	ग्राम-धन्नड़, तहसील-	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक
	रियल स्टिक इन्फ्रा तर्फे	राऊ, जिला–इंदौर स्थित	एम पी 179092022 ए
	पार्टनर श्री मुकुल गुप्ता पिता	भूमि खसरा नंबर 926/1	11277606 इंदौर दिनांक
	श्री केदारनाथ खण्डेलवाल		22.12.2022 से भूखण्ड
	पता-ए-58, ग्रेटर,	कुल किता 17 कुल रकबा	क्रं 71 से 107 तक इस
	ब्रजेश्वरी, पिपल्याहाना रोड़,	2.575 हे. भूमि में से मौके	प्रकार कुल 37 भूखण्ड
	इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का	पर उपलब्ध भूमि 2.4948	जिनका कुल क्षेत्रफल
	नाम ''एस.एम.होम्स''	हे. में से 0.30066 हे. भूमि	3374.66 वर्गमीटर भूमि है।
		रोड बाइन्डिंग में जाने से	
		2.1942 हे. भूमि पर।	

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 37 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडों का क्रय–विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

आवेदक मेसर्स एस.एम.रियल स्टिक इन्फ्रा तर्फे पार्टनर श्री मुकुल गुप्ता पिता श्री केदारनाथ खण्डेलवाल पता–ए–58, ग्रेटर ब्रजेश्वरी, पिपल्याहाना रोड़, इंदौर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन सर्वाधिक प्रकाशित दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में किया जाकर मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

#### **FLUIDOMAT LIMITED**

Regd. Office: 117 , lst Floor , Navneet Darshan 16/2 , Old Palasia INDORE (M.P.) 452018
CIN: L74210MP1978PLC001452
Website: www.fluidomat.com Email: info@fluidomat.com Tel.no.: 91-731-2564820
AN EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(Rupees in Lakhs except EPS)

SR.		Current Year	Previous	3 Months	3 Months
		Ended	Year Ended	Ended	Ended
No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4742.93	3565.14	1446.42	1151.63
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1287.06	708.10	448.58	247.33
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1287.06	708.10	448.58	247.33
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	961.15	547.69	329.91	178.23
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax)	960.06	574.11	321.90	171.96
6 7	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for	492.70	492.70	492.70	492.70
	continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	19.48	11.65	6.52	3.49
	2. Diluted:	19.48	11.65	6.52	3.49
Notes: 1	Key Standalone Audited Financial Information :				
SR.	Particulars	Current Year Ended	Previous Year Ended	3 Months Ended	3 Months Ended

1287.06 742.64 447.89 Net Profit after Tax

962.07

The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filled with the \$ (Listing Obligation and Disclosure Requirments) Regulation, 2015. The full format of the Q Stock Exchange webiste (www.bseindia.com) and on the company website (www.fluidom. The company has proposed Dividend @ Rs. 4.50 (45%) on the equity shares of Rs. 10/- ea

Place : Indore (M.P.) Dated : 30.05.2023

#### Mid India Industries Limited

CIN: L17124MP1991PLC006324 Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.)

> E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com **Extract of Audited Financial Results for the Quarter and**

Year Ended on March 31, 2023

{Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015} (Amount In Lakhs Except EPS)

S.	Part and an	Quarte	Ended	Year to Date Figures for Current Period Ended		
No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023		
		(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1	Total Income From Operations (Net)	383.52	955.02	1469.27		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	29.31	40.77	104.03		
3	3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)		40.77	57.81		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-18.10	19.83	44.96		
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	-20.28	20.14	42.78		
6	Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-		-2038.37		
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)  1. Basic  2. Diluted	-0.12 -0.12	0.12 0.12	0.26 0.26		

Note: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 is available on the website of the Company **www.midindiaindustries.com** and stock exchange i.e. www.bseindia.com.

For Mid India Industries Limited Sd/-

Oate : 29.05.2023

Sanjay Singh, Chairman & Managing Director DIN: 01548011

#### AVAILABLE FINANCE LIMITED CIN:-L67120MP1993PLC007481

Registered Office: Agarwal House, 5 Yeshwant Colony Indore452003 (MP) Phone No. 0731-4714000

Fax: 0731-2531388 Email: cs@availablefinance.in

#### ED STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS R THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (Rs. In Lakhs Except EPS)

Particulars			Standalone					Cons olidate				
	•	Quarter Ende	d	Year	Ended	Quarter Ended			Year Ended			
	31.03.23	31.12.22	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.12.22	31.03.22	31.03.23	31.03.22		
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited		
Total income from operations	10.59	15.12	12.39	58.97	63.46	10.59	15.12	12.39	58.97	63.46		
Net Profit / (Loss) for the period Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7.9	10.04	7.7	32.77	44.89	7.9	10.04	7.7	32.77	44.89		
Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	7.9	10.04	7.7	32.77	44.89	7.9	10.04	7.7	32.77	44.89		
Net Profit/(Loss) for the period After Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	1.39	7.6	-1.79	21.2	35.47	3852.08	2704.53	6414.87	17218.06	20895.29		
otal comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income after Tax)]	-5.48	28.26	8.9	55.42	88.64	-50.58	85.54	22.48	25.11	88.67		
Equity Share Capital (FV of Rs. 10/-)	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	679.83	678.44	658.63	679.83	658.63	93074.32	86330.99	72965.01	93074.32	72965.01		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.01	0.07	-0.02	0.21	0.35	37.75	26.51	62.87	168.74	204.78		

Note: The above is an extract of the detailed format of Year/Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Yearly Audited Financial Results for the period ending on March 31, 2023 are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at

> For AVAILABLE FINANCE LIMITED (RAKESH SAHU) WHOLE-TIME DIRECTOR & CFO DIN: 08433972

### Silver Oak (India) Limited

CIN: L11531MP1984PLC002635

Regd. Off. & Works: Plot No.110, Sector-I, Industrial Area, Pithampur-454775, Dist. Dhar (M.P.) Phone: 07292-403170, Email: silveroak.indore@gmail.com

Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st March, 2023

		S	TANDALON	E	CONSOLIDATED			
S. No.	Particulars	3 Months Ended (31.03.2023)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2022)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2022) in the Previous Year	3 Months Ended (31.03.2023)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2022)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2022) in the Previous Year	
1	Total Income from Operations (net)	0.19	2.03	0.23	91.39	113.25	104.84	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(140.45)	(37.11)	35.48	(126.37)	27.70	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.48	(106.90)	47.17	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.65	(109.91)	44.16	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(33.99)	(120.97)	(17.63)	35.65	(109.91)	44.16	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/-)	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	(776.16)	(655.18)	(655.18)	510.71	625.05	625.05	
8	Earning Per Share (before extraordinary items) a) Basic (not to be annualized) b) Diluted (not to be annualized)	(0.47) (0.47)	(3.19) (3.19)	(0.47) (0.47)	0.21 0.21	(3.02) (3.02)	0.70 0.70	

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 30th May, 2023 and thereafter taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023.

The detailed format of Quarterly Financial Results had been filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange http://www.bseindia.com/ and the listed entity http://silveroakindia.co.in/

#- Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules. Whichever is applicable

Place: Indore Date: 30.05.2023

(DIN: 00070935)

For and on behalf of SILVER OAK (INDIA) LIMITED **Shirish Jaltare** Whole Time Director

Director (DIN: 06625369)

Date: 30/05/2023

Place: Indore

**Particulars** 

31.03.2023 31.03.2022

**PUBLIC NOTICE** Notice is hereby given that MR RUPESH RASIKLAL SHAH nereinafter referred to as " the Owner " is the absolute Owner in respect of Flat No. 303 admeasuring 676 square feet carpet area on the 3rd Floor together with 2 (Two) car parking spaces i.e. 1 (One

stackable car parking space in the building known as " Shree Shyam Smruti " constructed on Plot No. 79 -A, CTS No. G/283, Tagore Road Santacruz ( West ) , Mumbai - 400 054, hereinafter referred to as "the said Premises " and holder of 5 ( Five ) shares of Rs . 50 / - ( Rupees Fifty Only ) each fully paid up bearing Distinctive Nos . 101 to 105 under Certificate No. 41 dated 8.3.2012 issued by the Shree Shyam Smruti Co - operative Housing Society Limited , nereinafter referred to as " the said Shares "more particularly described in the Schedule hereunder written The Owner is negotiating for Sale of the said Premises along with the said Shares with my client. I am instructed by my client to investigate the title of the Owner in respect of the said Premises and said Shares All persons having any claim against in to or upon the above referred said Premises or any part thereof by way of inheritance agreement , contract , sale mortgage . possession , gift , lease sub - lease, tenancy, leave and license lien , charge , trust maintenance, attachment easement or otherwise are required to notify the same in writing along with the supporting documentary evidence to the undersigned at 11 - A Gulmohar, S. V. Road, Khar (West , Mumbai - 400 052 within 10 (Ten days from the date hereof otherwise it will be deemed that there are no claims and / or that the same are waived and it will be presumed that the said Premises along with the said Shares are free of all encumbrances and the certificate

vill be issued accordingly The Schedule hereinabove

referred to
DESCRIPTION OF PROPERTY
Flat No. 303 admeasuring 676 square feet carpet area on the 3rd Floor together with 2 ( Two ) car parking spaces i.e. 1 ( One ) stackable car parking space in the building known as " Shree Shyam Smruti " constructed on Plot No. 79 -A. CTS No. G / 283. Tagore Road Santacruz (West), Mumbai - 400 054 and holder of 5 (Five) shares of Rs . 50 / - ( Rupees Fifty Only ) each fully paid up bearing Distinctive Nos . 101 to 105 under Certificate No. 41 dated 8.3.2012 issued by the Shree Shyam Smruti Co - operative Housing Society Limited. Place:- Mumbai Date:-31/05/2023

M/s. K. N. Gandhi & Co. Chartered Accountants 11-A, Gulmohar, 1st Floor, S.V. Road, Khar (W) Mumbai - 52 Tel: 26483980 | 9022662323

#### **EXPO GAS CONTAINERS LTD.**

Regd. Office: 150, Sheriff Devji Street, Mumbai - 400 003. Tel No. 022-61319600, Website: www.expogas.com STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST MAR, 2023

FOR THE QUA	FOR THE QUARTER ENDED 31ST MAR, 2023 Rs in lac								
Particulars	C	Quarter Endir	ng	Accounting Year Ending					
Farticulars	Audited 31.03.2023	Unaudited 31.12.2022	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2023	Audited 31.03.2022				
Total Income from Operations	3,116.85	1,794.26	1,539.34	8,035.37	7,310.33				
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before tax	(316.02)	26.01	8.41	(231.73)	113.05				
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after tax	(305.23)	26.01	(45.11)	(220.95)	59.52				
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after comprehensive income)	(283.35)	26.01	(49.36)	(199.07)	55.27				
Equity Share Capital	761.46	761.46	761.46	761.46	761.46				
Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet) of previous accounting year. Earning Per Share.	1,272.98	1,472.05	1,472.05	1,272.98	1,472.05				
Before Comprehensive Income									
- Basic	(1.60)	0.14	(0.24)	(1.16)	0.31				
- Diluted	(1.60)	0.14	(0.24)	(1.16)	0.31				
b) After Comprehensive Income									
- Basic	(1.49)	0.14	(0.26)	(1.05)	0.29				
- Diluted	(1.49)	0.14	(0.26)	(1.05)	0.29				

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of audited Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites and on the Company's website www.expodas.com

By order of the Board of Directors For Expo Gas Containers Limited

Hasanain S. Mewawala Managing Director (DIN - 00125472)



Date: May 29, 2023

Place: Mumbai

# Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com. Website: www.midindiaindustries.com

#### **Extract of Audited Financial Results for the Quarter and** Year Ended on March 31, 2023

{Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015} (Amount In Lakhs Except EPS) Year to Date Figures for

s.	S. Particulare		r Ended	Current Period Ended
No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income From Operations (Net)	383.52	955.02	1469.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	29.31	40.77	104.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.91	40.77	57.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-18.10	19.83	44.96
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	-20.28	20.14	42.78
6	Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-2038.37
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	-0.12 -0.12	0.12 0.12	0.26 0.26
Not	Diluted     : The above is an extract of the detailed format of the			

ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement ) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 is available on the website of the Company **www.midindiaindustries.com** and stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Mid India Industries Limited

Place: Indore Date: 29.05.2023

Sd/-Sanjay Singh, Chairman & Managing Director DIN: 01548011



#### **GARWARE SYNTHETICS LIMITED**

Registered Address: Manish Textile Industrial Premises. Opp. Golden Chemical. Penkar Pada, Mira Road-401104. | CIN: L99999MH1969PLC014371

**EXTRACT OF THE STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS** 

	FOR THE QUARTER AND Y	EAR ENDE	D 31ST MA	RCH, 2023		(Rs. In Lakhs)
Sr.		Year	Ended			
No.	Particulars	31.03.2023 Audited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	Total Income	306.47	276.40	377.78	1177.44	1303.54
2	Profit/(loss) before tax, exceptional items and					
	extraordinary items	20.76	-2.65	-3.89	13.32	44.54
3	Profit/(loss) before tax but after extra ordinary activities					
	and exceptional items)	42.74	-2.65	7.26	35.29	55.68
4	Net Profit/(loss) from ordinary activities after tax	62.65	-2.65	-25.40	57.82	23.02
4 5 6	Net Profit/(loss) for the period	62.65	-2.65	-25.40	57.82	23.02
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising					
	of Profit and Loss for the period (after tax) and other					
	Comprehensive Income (After Tax)]	64.66	-2.65	-89.50	59.83	-41.08
7	Paid- up Equity Share Capital (Face value shall be indicated)	580.89	580.89	580.89	580.89	580.89
8	Reserves Excluding (Revaluation Reserves) as shown					
	in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	-	261.88	261.88
9	i). Earnings per share (before extra ordinary items)					
	a. Basic	0.74	-0.05	0.12	0.61	0.96
	b. Diluted	0.74	-0.05	0.12	0.61	0.96
10	i). Earnings per share (after extra ordinary items)					
	a. Basic	1.08	-0.05	-0.44	1.00	0.40
	b. Diluted	1.08	-0.05	-0.44	1.00	0.40

#### Notes:

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges unde
- Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. b) The full format of the Quarter and year ended audited Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange
- c) Exceptional or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is

For Garware Synthetics Limited Sunder Kocha Moolya

Place: Thane Date: 30.05.2023



#### **EPIC ENERGY LIMITED**

Regd Office: Office No. 2, "Sai Pooja Apartment, Plot No. 374, Sector 19C, Kopar Khairane, Navi Mumbai-400709 Maharashtra Email: info@epicenergy.in, Tel.: +91-22- 8419988262 CIN: L67120MH1991PLC063103

#### **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakhs)

	Particulars	Quarter Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2023	Quarter Ended 31.03.2022
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
(1)	Total Income from operations (net)	27.52	117.00	25.08
(2)	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(33.56)	(47.45)	(22.47)
(3)	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(33.56)	(47.45)	(22.47)
(4)	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(32.54)	(43.08)	(20.86)
(5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(32.54)	(43.08)	(20.86)
(6)	(6) Equity Share capital	721.15	721.15	721.15
(7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet)		(83.13)	(40.05)
(8)	Earnings Per equity Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)			
	(i) Basic	(0.45)	(0.60)	(0.29)
	(ii) diluted	(0.45)	(0.60)	(0.29)

Note: (1)The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (2) The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

for EPIC ENERGY LIMITED

Navi Mumbai Sd/-29.05.2023 Director

**NOTICE** Notice is hereby given that all inpatie out-patients Medical Records etc. upto

(out-patients) will be destroyed. Those who require any medical records etc. kindly contact the undersigned within 30 days of the publication of this Notice.

Sd/-(Medical Superitendent)

31.03.2018 (in-patients) / 31.03.2020 Address: N.S. Road No. 13, Juhu Scheme, Vile Parle (W), Mumbai - 400049. Tel. No. 26206021/26206493.

For Bharatiya Arogya Nidhi, Sheth K.C. Parikh General Hospital

Abhinav Capital Services Ltd. B-709, Express Zone, Western Express Highway, Opp Adani Electricity, Malad (East), Mumbai-400097. CIN: L65990MH1994PLC083603

' '	CIN: L65990MH19			Laot), mann	oui 100001.		Pa
						A	Assets
	Statement of Audited Fin					1	Non -Cu
	Quarter and Year E				(₹ In Lacs)		(a) Propo
ı		Quarter	Quarter	Year	Year		(b)Capita
Sr.	Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended		(c)Right
No.	i unouluis	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023			(d)Intang
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		(e)Financ
1	Total income From Operations	233.76	91.71	1,324.28	672.01		(I) Inve
2	Net profit/(loss) for the period (before tax,						(III) Ot
ı	Exceptional And /or Extraordinary Item)	217.59	69.88	1,216.31	587.95		(F) Defer
3	Net profit/(loss) for the period before Tax						(g) Other
ı	(After Exceptional and /or Extraordinary Item )	217.59	69.88	1,216.31	587.95		Tota
4	Net profit/(loss) for the period After Tax						2 Curren
ı	(After Exceptional and /or Extraordinary Items)	160.27	54.73	968.24	469.46		(a) Inven
5	Total comprehensive income for the period						(b) Finan
ı	{Comprising Profit /(Loss) for the period (After Tax)						(I) In
ı	and Other Comprehensive Income (After Tax)}	(88.83)	338.46	422.35	998.36		(II) Lo
6	Paid up Equity Share Capital	692.46	692.46	692.46	692.46		(III) Ca
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve )	3,839.94	2,812.19	3,839.94	2,812.19		(iv) Ba
8	Securities premium Accounts	1,508.15	1,145.32	1,508.15	1,145.32		cas
9	Networth	6,040.56	4,649.96	6,040.56	4,649.96		(v) Oth
10	Paid up Debt capital /Outstanding Debt	0.24	216.10	0.24	216.10		(C)other <b>Tot</b> a
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL		Tota
12	Debt equity Ratio	0.00	0.31	0.00	0.31	В	
13	Earning Per Share (of Rs. 10/- Each)					[	1 Equity
	(for continuing and Discontinued Operations)-						(a) Equit
ı	1. Basic	2.31	0.79	13.98	6.78		(B) Other
ı	2. Diluted	2.31	0.79	13.98	6.78		Tota
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA NA	NA		2 Non Cı
15	Debenture Redemption Reserve	NA NA	NA NA	l NA	NA NA		(a) Finan
16	Debt Service Coverage Ratio	5,005.39	2.91	5,005.39	2.91		(I) E
17	Interest Service Coverage Ratio	26.09	26.75	26.09	26.75		(II)
l''	Interest 35, 1100 001014go Halio	20.03	20.70	20.03	20.70		(III)
							(B) Other

Note: As the Company is an investment Company, dividend received is considered as a part of cash flow from operating activities. Cash flow from Investment in Equity shares has been classified as investment activity based on the intention of the management at the time of investing.

- The above Audited Financial Results were reviewed & approved at the meeting of the Board of Directors held on 29th May, 2023 and subjected to audit by the Statutory Auditors of the Company.
- The Company does not have more than one activity hence segment wise reporting is not separately given, as per the Accounting Standard on Segment Reporting (IND AS-108).
- Status of investor grievances opening -0, received during the quarter -0. grievances reddressed 0. pending-0.
- All the above data are in lakhs, except the details of EPS, No. of Shares, and Percentage of Shareholding.
- Figures for the previous periods have been regrouped / rearranged , wherever necessary to conform with the current period.
- Audited Financial Ratios for year Ended March 2023: Debt Equity Ratio - 0.0004%, Debt Service Coverage Ratio - 5005.39 times, Interest Service Coverage Ratio - 26.09%, Networth - Rs. 6040.56 Lakhs, Net Profit After Tax - Rs. 968.24 Lakhs, Earning Per Share - Rs.13.98/-, Current Ratio - 392.84%, Long Term Debt to Working Capital - NA, Current Libaility Ratio 0.01% Total Debts to Total Assets - 0.0004 times, Debtors Turnover - 0.60 times, Inventory

 $Turnover\,Ratio\,-\,NA, Operating\,Margin\,Percentage\,-\,91.84\%, Net\,Proft\,Margin\,Percentage\,-\,73.11\%$ 

Non -Current Assets (a) Property, Plant & equipments 1.92 1.92 b)Capital Work-in progress c)Right -of use Assets (d)Intangible Assets e)Financial Assets (I) Investments -(II) Loans (III) Other non-Financial Assets (F) Deferred Tax Assets (Net) (a) Other Non- Current Assets 0.36 **Total Non Current Assets** 11.31 **Current Assets** (b) Financial Assets (I) Investments 2.072.10 3,531.18 (II) Loans 1.213.50 792.42 (III) Cash &Cash Equivalents 1.052.97 (iv) Bank Balance Other than cash and cash equivalents 1.808.35 (v) Other Financial Assets 1.165.24 (C)other Current Assets 6,541.81 5,183.97 Total current Assets 6,544.09 5,195.28 Total- Assets quity And Liabilities (a) Equity Share Capital 692.46 692.46 5,348.10 3,957.50 (B) Other Equity 6,040.56 4,649.96 **Total Equity** Non Current Liabilities (a) Financial Liabilities (I) Barrowings (II) Lease Liability (III) others (B) Other Non Current Liabilities 12.09 4.42 (C) Provision D) Deferred Tax Liabilities (Net) 486 73 320.18 **Total Non Current Liabilities** 498.82 324.60 3 Current Liabilities (a) Financial Liabilities (I) Borrowings 0.24 216.10 (II) Lease Liabillity (III) Trade Payables Total Outstaning Dues Of Micro 0.47 Enterprises And small Enterprises Total Outstaning Dues Of Creditors Other Than Micro Enterprises And small Enterprise 4.00 3.62 (iv) Other Financial Liabilities 1.00 (b) other Financial Liabilities (c) Provision (d) Current Tax Liabilities (Net) **Total Current Liabilities** 4.71 220.71 Total Liabilities 503.54 545.31 **Total Equity And Liabilities** 6,544.09 5,195.28 STATEMENT OF AUDITED CASHELOW FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023

Particulars	For Year Ended	31st March 2023	For Year Ended 31st March 202		
A] Cash Flow from Operating Activities					
Net Profit before Taxation and Exceptional items		1,216.31		587.9	
Adjustments for :		,			
Depreciation and Amortisation	-		0.25		
Provision & Contingencies	(11.34)		3.09		
Profit on sale of Investments	(912.83)		(420.25)		
Dividend Income	(13.62)		(9.69)		
	, ,	(937.79)		(426.60	
Operating Profit before Working Capital changes		278.53		161.3	
(Increase)/Decrease in Loans Given	432.41		96.92		
(Increase)/Decrease in Deferred Tax Assets	-				
Increase/(Decrease) in Financial Barrowings	(215.85)		215.03		
Increase/(Decrease) in Other financial/non financial Liabilities	(3.23)		0.93		
(Increase)/Decrease in Current Tax Assets	(		-		
Increase/(Decrease) in Trade Payables	0.85		1.96		
(Increase)/Decrease in Other Financial Assets/non financial assets	643.33		(1,798.88)		
Increase/(Decrease) in Current Tax Liabilities (Net)			-		
(Increase)/Decrease in Loans and Advances					
		857.51		(1,484.04	
Cash Generated / (Utilised) in Operations		1,136.05		(1,322.69	
Income Tax Paid		(204.86)		(132.48	
Cashflow before extraordinary Items		931.19		(1,455.17	
Net Cash from Operating Activities (A)		931.19		(1,455.17	
B] Cash Flow From Investing Activities				• •	
Purchase of Investments	(1,51,046.34)		(79,527.13)		
Sale of Investments	1,51,064.49		81,044.31		
Dividend Received	13.62		9.69		
Net Cash from Investing Activities (B)		31.76		1,526.8	
C] Cash Flow From Financing activities		-			
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents		962.96		71.7	
Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year		90.01	F	18.3	
Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		1,052.97		90.0	
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents		962.96		71.7	

Note: Cash Flow is prepared as per indirect method

Note: As the Company is an investment Company, dividend received is considered as a part of cash flow from operating activities. Cash flow from Investment in Equity shares has been classified as investment activity based on the intention of the management at the time of investing

Place : Mumbai Date : 29-05-2023

For and on behalf of board of **Abhinav Capital Services Limite** Director - DIN No : 00015113



# **HUBTOWN LIMITED**

Registered Office: Hubtown Seasons, CTS No. 469-A, Opp. Jain Temple, R. K. Chemburkar Marg, Chembur - East, Mumbai - 400 071 Phone: + 91 22 2526 5000; Fax: + 91 22 25265099; E-mail: investorcell@hubtown.co.in: Website: www.hubtown.co.in

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in lakh except as stated)

			S	TANDALON	E		CONSOLIDATED				
Sr.		Qu	arter end	ed	Year e	ended	Quarter ended			Year e	nded
No.	Particulars	March 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	4359	9184	15715	23483	24723	8581	12462	11844	33600	21419
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(274)	(178)	(7414)	(2108)	(11668)	141	941	(7879)	(606)	(12694)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(274)	(178)	(7414)	(2108)	(11668)	141	941	(7879)	(606)	(12694)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(316)	9	(8059)	1081	(12089)	144	1128	(8432)	2628	(13021)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(692)	110	(8013)	1009	(11684)	(86)	1517	(8377)	2794	(12446
6.	Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	7634	7274	7274	7634	7274	7634	7274	7274	7634	7274
7.	Reserves (excluding revaluation reserves)				136107	132866				122932	121642
8.	Earning per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)										
	Basic	(0.42)	0.01	(11.08)	1.47	(16.62)	0.63	1.95	(11.57)	4.16	(17.66
	Diluted	(0.42)	0.01	(11.08)	1.47	(16.62)	0.63	1.95	(11.57)	4.16	(17.66

- 1. The above results have been reviewed by the Audit and Compliance Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held
- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges - www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website - www.hubtown.co.in.
- 3. Figures for the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of the Board For Hubtown Limited

> Vyomesh M. Shah Managing Director DIN: 00009596

Place: Mumbai Dated: May 29, 2023

Dadar (W) Branch, 1 st Floor Tirthankar Flat, 294, S K Bole Marg, Dadar (w), Mumbai - 400028

#### POSSESSION NOTICE [APPENDIX IV] SEE RULE [8 (I)]

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 27/07/2017 calling upon the borrowers/mortgagor/guarantors Mrs. Shaima Bashir Kuwari to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 70,98,243.00 (Rupees Seventy Jakh Ninety Eight Thousand Two Hundred Forty Three only) as on 27/07/2017 within 60 days from the date of notice/date of received fithe sold policy.

The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby giver to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken **Physical Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on this 26/05/2023

The borrower/ mortgagor/guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount being Rs. 70,98,243.00 (Rupees Seventy lakh Ninety Eight Thousand Two Hundred Forty Three only) as on 27/07/2017 plus interest & expenses thereon until payments in full. The borrower's attention is invited to the provision of sub section (8) if Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of immovable property
Flat No 902, 9th Floor, "Elite Tower, Plot no.9B & 9C, Sector-10, Kharghar, Taluka
Panvel, Dist – Raigad, Navi Mumbai –410210

Date: 31.05.2023 **Authorised Office** Place : Kharghar Bank of India Dadar (w)

#### **BLUE PEARL TEXSPIN LIMITED**

Regd Off: Office No. 32, Vyapar Bhavan, 49, P.D. Mello Road, Mumbai-400 009, Maharasi CIN: L36104MH1992PLC069447, Tel: 9699197884 and 8080487884, Fax: 23487884 Email: bluepearltexspin@gmail.com, Website: www.bluepearltexspin.com

Α	udited Financial Results for the Quarter and	Year ended	31.03.2023	(Rs. In Lakhs)
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023	Year ended (31.03.2023)	Quarter ended 31.03.2022
		Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4.82	22.35	4.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.53	0.72	-3.12
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	1.53	0.72	-3.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.53	0.72	-3.12
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.53	0.72	-3.12
6	Equity Share Capital	25.60	25.60	25.60
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-37.23	-37.23	-36,51
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	(a) Basic	0.60	-0.28	-1.22
	(b) Diluted	0.60	-0.28	-1.22

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Appual Financial Results filed with he Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites o he Stock Exchange at www.bseindia.com(s) and the Company's website

For Blue Pearl Texspin Ltd Mr. Arun Kumar Sharma Date: 29/05/23 Directo DIN: 00369461 Place: Mumba

#### **RELIANCE**

Extract from the Consolidated Audited Financial Results of Reliance Capital Limited for the quarter and year ended March 31, 2023. (₹ in lakh, except per share data)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 31-Mar-23 Unaudited	Year ended 31-Mar-23 Audited	Quarter ended 31-Mar-22 Unaudited
1.	Total Income from Operations	4 43 550	19 31 295	4 77 035
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(1 51 313)	(1 65 427)	(4 10 600)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(1 49 907)	(1 75 941)	(41 31 69)
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1 48 772)	(2 01 789)	(4 24 920)
5.	Equity Share Capital	25 324	25 324	25 324
6.	Other Equity		(12 31 853)	
7.	Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of Rs.10/- each)) (not annualised)			
	(i) Basic (₹)	(59.70)	(70.07)	(164.56)
	(ii) Diluted (₹)	(59.70)	(70.07)	(164.56)

Extract from the Standalone Audited Financial Results of Reliance Capital Limited for the guarter and year ended March 31, 2023.

				(₹ III crore)
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31-Mar-23 Unaudited	Year ended 31-Mar-23 Audited	Quarter ended 31-Mar-22 Unaudited
1	Total Income	339	2098	455
2	Profit / (Loss) before tax	(1 18 939)	(1 70 771)	(2 548)
3	Profit / (Loss) after tax	(1 18 939)	(1 70 771)	(2 548)
_	The above is an evituant of the detailed			nded Cinemaial

The above is an extract of the detailed format of the quarter and year ended Financia Results filed with the Stock Exchange(s) on May 29, 2022 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results are available on the Company's website i.e. www.reliancecapital.co.in and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Reserve Bank of India ("RBI") has superseded the board of directors of Reliance Capital Limited ("Company") and appointed Mr. Nageswara Rao Y as the Administrator of the Company in terms of Section 45-IE of the Reserve Bank of India Act, 1934 ("RBI Act"). The RBI, in exercise of powers conferred under Section 45-IE 5(a) of the RBI Act, had constituted a three-member Advisory Committee to assist the Administrator of the Company in discharge of his duties Further, pursuant to an order dated December 6, 2021 of the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT"), Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") has been initiated against the Company as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code")

May 29, 2023

Reliance Capital Limited

CIN: L65910MH1986PLC165645 Regd. Office: Kamala Mills Compound, Trade World B Wing, 7th Floor, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013

Tel.: +91 22 4158 4000, Fax: +91 22 2490 5125 E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

### PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client is negotiating with **BHARAT FURNISHING** ving its office at India House, Kemps Corn umballa Hill, Mumbai-400 003 ("the Owner" for purchase of garage more particularly described in the Schedule hereunder written together with a rights and benefits attached thereto ("the said Garage"), with a clear and marketable title, free rom all encumbrances and claims.

ALL PERSONS having any claim against or in respect of the said Garage or any part thereo by way of sale, exchange, mortgage (equitable wise), gift, trust, bequest, pos lease, sub-lease, assignment, tenancy, license charge, lien, easement, partition, loans, advance right of prescription or pre-emption or under any Agreement or other disposition or under an spendence, injunction, attachment, decree, orc or award passed by any Court of Law, Tribunal Revenue or Statutory Authority or Arbitration o otherwise howsoever are hereby requested to notify the same in writing to me with supportin entary evidence at the address mention erein below within 10 (ten) days from the date hereof failing which, the claim or claims, if any of such person or persons will be considered to have been waived and / or abandoned and the ourchase of the said Garage shall be conclude by my Client.

DESCRIPTION OF THE GARAGE Garage No. A admeasuring 480 square fee (carpet area) on the Ground floor in the building nown as "MISTRY PARK ANNEXE CHS. LTD situated at 77-B, Bhulabhai Desai Road, Mumba 400 026, bearing C. S. No. 691 of Malabar and

Dated this 31st day of May, 2023. YOGINI D. GADA, Advocate High Court Mumbai Office No. 7, Ground Floor Yashwant Chambers Burjorji Bharucha Marg, Mumbai-400 00 Email: yoginigada@gmail.cor



Registered Office: Plot No 9, Spectra Compound, Ramchandra Lane Extension, Kanchpada II, Malad (West), Mumbai - 400 064 CIN NO: L74999MH1992PLC067849, Email: sepl12@rediffmail.com

Phone No: 022 - 2889 3933 Website: www.spectraindustries.co.ir AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH' 2023

Sr.	DHiI		Quarter Ended		Year	to date
١o.	Particulars	31/03/2023	31/03/2022	31/12/2022	31/03/2023	31/03/2022
		(Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after Tax	136.06	(462.96)	(147.94)	(333.91)	(550.44)
3	Total Comprehensive Income / (Loss) - Net	_	_	-	-	-
4	Paid up equity share capital - (Face value of Rs. 10/- each)	707.85	707.85	707.85	707.85	707.85
5	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	(5942.83)	(5009.33)	-	(5942.83)	(5009.33)
6	Earning Per Share (EPS) (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each - Not annualised): (a) Basic (b) Diluted	1.92	(6.54)	(2.09)	(4.72)	(7.78)
7	Earning per share (EPS) (after extraordinary items) of Rs.10/- each (a) Basic (b) Diluted	1.92	(11.30)	(2.09)	(4.72)	(7.78)

Notes:
1. The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on

30.05.2023.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and the Company's website (www.spectraindustries.co.in)

By Order of The Board For SPECTRA INDUSTRIES LIMITED Sd/-Jaidev Vinod Kumar Gupta Executive Director & CFO DIN - 00066999

(₹ in lakhs, except EPS)

CIN: L17124MP1991PLC006324 Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

Mid India Industries Limited

**Extract of Audited Financial Results for the Quarter and** Year Ended on March 31, 2023

S.		Quarte	r Ended	Year to Date Figures fo Current Period Ended
No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income From Operations (Net)	383.52	955.02	1469.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	29.31	40.77	104.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-16.91	40.77	57.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-18.10	19.83	44.96
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	-20.28	20.14	42.78
6	Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-2038.37
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	-0.12 -0.12	0.12 0.12	0.26 0.26

ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 is available on the website of the Company www.midindiaindustries.com and stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Mid India Industries Limited

Place: Indore Date : 29.05.2023

Sanjay Singh, Chairman & Managing Director

Sd/-

# **GLOBAL OFFSHORE SERVICES LTD.**

A GARWARE गखार

Registered Office: 101, Swapnabhoomi, 'A' Wing, S. K. Bole Road, Dadar (West), Mumbai - 400 028. CIN No: L61100MH1976PLC019229

**Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results** for the Quarter and Year Ended 31st March, 2023

		Stand	Consolidated				
	Quarte	Quarter Ended Year Ended			Year Ended		
PARTICULARS	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2022	
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total Income from operations (net)	416.16	1,391.90	2,969.61	4,776.55	5,119.96	6,614.03	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,							
Exceptional and/or Extraordinary items)	(327.62)	(841.84)	(4,394.00)	(4,560.45)	(5,321.36)	(5,481.94	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax							
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	39,381.27	(1,762.75)	17,334.17	(6,176.73)	38,392.77	(7,075.15	
Net Profit / (Loss) for the period after Tax							
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	39,252.52	(1,783.55)	17,199.57	(6,204.53)	38,257.12	(7,103.92	
Total Comprehensive income for the period							
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)							
and other Comprehensive income (after tax)]	39,252.77	(1,787.04)	17,196.23	(6,193.40)	36,368.49	(8,005.81)	
Equity Share Capital	2,472.88	2,472.88	2,472.88	2,472.88	2,472.88	2,472.88	
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)							
as shown in the Audited Balance Sheet of the							
previous year.	-	-	19,484.60	2,288.37	2,275.04	(28,012.99)	
Earning Per Share (of Rs.10/- each)							
(for Continuing and Discountinued Operations)							
1. Basic	158.73	(7.21)	69.55	(25.09)	127.65	(25.16)	
2. Diluted	158.73	(7.21)	69.55	(25.09)	127.65	(25.16	

The financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th May, 2023.

The above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated financial results filed for the quarter and year ended or March 31, 2023 with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31 2023 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.globaloffshore.in)

Place: Mumba M M Honkan Date: 30/05/2023 Whole Time Director

(Rupees in Lakhs)

(Audited)

7,734.01

304.07

304.07

304.07

329.15

19.19

896.00

Year Ended

(Audited)

10,614.38

732.36

732.36

732.36

542.21

1,916.12

722.54

3.72

#### **CREATIVE EYE LIMITED**

(CIN: 199999MH1986PLC125721) "Kailash Plaza", Plot No.12-A, New Link Road, A dheri (W), Mumbai-400 053 Tel. No. 2673 26 13 (7 Lines) Fax: 2673 22 96 Website: www.creativeeye.com, E-mail: contact@creativeeye.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31-03-2023

Sr.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
No.		31/03/2023	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2022	
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	24.00	153.68	44.00	196.18	307.91	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(62.68)	54.44	(27.07)	(37.23)	(89.98)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(62.68)	54.44	(27.07)	(37.23)	(89.98)	
4	Net Profit / (Loss) fo the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(62.68)	54.44	(27.07)	(37.23)	(94.23)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(64.38)	53.41	(31.63)	(33.53)	(77.79)	
6	Paid Up Equity Share Capital	1,002.91	1,002.91	1,002.91	1,002.91	1,002.91	
7	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of Previous Accounting Year	-		-	1,266.39	1,299.91	
8	Earning Per Share- (₹ 5/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	- Basic :	(0.31)	0.27	(0.13)	(0.19)	(0.47)	
	- Diluted :	(0.31)	0.27	(0.13)	(0.19)	(0.47)	
Notes:							

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lisiting and Other Disclosure Requiremetns) Regulations, 2015. The full format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange's (www.bs Company's website (www.creativeeye.com)

For CREATIVE EYE LIMITED

(DHEERAJ KUMAR

Chairman & Managing Directo DIN: 00018094

#### GARWARE गखारे

Dated: 30.05.2023

#### GARWARE SYNTHETICS LIMITED

Registered Address: Manish Textile Industrial Premises, Opp. Golden Chemical Penkar Pada, Mira Road-401104. | CIN: L99999MH1969PLC014371

**EXTRACT OF THE STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

Sr.		(	Quarter Ended	Year I	Ended	١	
No.	Particulars	31.03.2023 Audited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited	
1	Total Income	306.47	276.40	377.78	1177.44	1303.54	l
2	Profit/(loss) before tax, exceptional items and						ı
	extraordinary items	20.76	-2.65	-3.89	13.32	44.54	ı
3	Profit/(loss) before tax but after extra ordinary activities				05.00		ı
	and exceptional items)	42.74	-2.65	7.26	35.29	55.68	ı
4	Net Profit/(loss) from ordinary activities after tax	62.65	-2.65	-25.40	57.82	23.02	ı
4 5 6	Net Profit/(loss) for the period	62.65	-2.65	-25.40	57.82	23.02	ı
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising						ı
	of Profit and Loss for the period (after tax) and other						ı
	Comprehensive Income (After Tax)]	64.66	-2.65	-89.50	59.83	-41.08	ı
7	Paid- up Equity Share Capital (Face value shall be indicated)	580.89	580.89	580.89	580.89	580.89	ı
8	Reserves Excluding (Revaluation Reserves) as shown						ı
	in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	-	261.88	261.88	ı
9	i). Earnings per share (before extra ordinary items)						ı
	a. Basic	0.74	-0.05	0.12	0.61	0.96	ı
	b. Diluted	0.74	-0.05	0.12	0.61	0.96	ı
10	i). Earnings per share (after extra ordinary items)						ı
	a. Basic	1.08	-0.05	-0.44	1.00	0.40	1
	b. Diluted	1.08	-0.05	-0.44	1.00	0.40	

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarter and year ended audited Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange

c) Exceptional or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is

applicable. For Garware Synthetics Limited

Sunder Kocha Moolya

Whole Time Directo

Place: Thane Date: 30.05.2023

**EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED EROS** CIN: L99999MH1994PLC080502

Regd. Office: 901/902, Supreme Chambers, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400053 EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED AS AT 31 MARCH 2023 (₹ in lakhs, except per share data)

Quarter ended Quarter ended **Particulars** Year ended Year ended 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2022 l No. (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total income from operations (net) 40.447 8,753 75.65 46.569 2 | Net Profit/ (Loss) before tax and exceptional items (635)3,217 (11,968)(115) 3 | Net Profit/ (Loss) before tax after exceptional item (635)3,217 (11,968) (115)Net Profit/ (Loss) after tax and exceptional items 1,251 10 802 (676)1.759 7,823 3,372 5 | Total Comprehensive Income 6 Equity Share Capital 9,591 9,588 9,591 9,588 7 | Earning Per Share (of ₹10 each) Basic (9.72)2.05 (12.48)(0.96)2 05 (12.48 (0.96 (9.72)

Notes:

Place: Mumbai

By Order of the Board

1. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the year and quarter ended as at 31 March 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended as at 31 March 2023 are available on the Stock Exchanges websites. (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and Company's websites https://www.erosmediaworld.com/investors/financial-reports/ Additional information on Standalone financial results is as follows: (₹ in lakhs)

**Particulars** Quarter ended Quarter ended Year ended Year ended Ι<sub>Νο.</sub> 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 37.828 Total income from operations (net) 6.933 45,142 25,761 Net Profit/ (Loss) before tax and exceptional items (832)209 (11,331)360 Net Profit/ (Loss) before tax after exceptional iter (832)209 (11,331)360 Net Profit/ (Loss) after tax and exceptional items (832)209 (11,331) 360 5 | Total Comprehensive Income (806)232 (11.314) 370

3 The accompanying consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29 May 2023. For and on hehalf of Board of Directors

Pradeep Dwived

Date: 29 May, 2023

Executive Director & Chief Executive Office DIN 07780146

#### YASHRAJ CONTAINEURS LIMITED Regd.office:- Madhav Niwas CHSL, Flat No. B-1A, 1st floor, Natakwala Lane, opp. S.V. Road, Borivali (West) Mumbai - 400092, Tel: 28069097 CIN NO :- L28120MH1993PLCO73160

Email: Yashraj\_bom@rediffmail.com website: www.barrelpeople.com Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March, 2023

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-03-2023	Quarter ended 31-12-2022	Quarter ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total revenue from Operations	55.09	54.70	488.29	450.18	2,256.15
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional)	(619.53)	(28.16)	140.32	(588.91)	233.13
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional)	(619.53)	(28.16)	140.32	(588.91)	233.13
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional)	(597.89)	(28.16)	322.78	(567.27)	415.58
5	Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(594.64)	(25.95)	320.59	(561.37)	414.78
6	Equity Share capital	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7	Other Equity				(9,594.72)	(9,033.36)
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (not annualized)					
	1. Basic	(3.52)	(0.17)	1.90	(3.34)	2.44
	2. Diluted	(3.52)	(0.17)	1.90	(3.34)	2.44

#### Notes:

- a) The Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its meeting held on 29th May, 2023. The Auditors of the Company have carried out Audit of the Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31.03.2023.
- Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites (www.bseindia.com and Company's

b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other

(JAYESH V VALIA - MANAGING DIRECTOR)

PLACE :- MUMBAI For YASHRAJ CONTAINEURS LIMITED

DATE :- 29th May, 2023

Managing Director DIN 09091603

SD/-Ravi Natvarlal Ruparelia

**MOS Utility Limited** 

CIN: U66000MH2009PLC194380 Registered Office: 12th Floor, Atul First Avenue, Above Kia Motors Showroom,

Goregaon - Mulund Link Rd, Malad West, Mumbai, Maharashtra 400064.

Website: www.mos-world.com, Email: secretarial@mos-world.com

Half Year Ended

(Unaudited)

5,330.22

268.94

268.94

268.94

195.84

1,878.62

62.01

2.13

2.13

31.03.2023 30.09.2022 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022

4,463.94

209.16

209.16

209.16

234.24

19.19

896.00

2.39

By Order of the Board of

MOS Utility Limited

Audited standalone Financial Results for the half year and year ended March 31, 2023

(Audited)

5,284.15

463.42

463.42

463.42

346.37

1.916.12

722.54

. The above standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 30

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 or 20% and 20% are the stock of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 or 20% are the stock Exchange under Regulation 33 or

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial

results is available on the stock exchange's website (www.nseindia.com) and on the company's website (www.nseindia.com)

2023, and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2023.

. Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

**Particulars** 

Total Income from operations (Net)

and exceptional items

and after exceptional items

Paid-up equity share capital

(Face value per share Rs. 10/- each)

Other Equity

Place: Mumbai

Date: 30.05.2023

Earnings per share

a) Basic (Rs. Per share)

b) Diluted (Rs. Per share)

Net Profit / (loss) for the period before ta

Net Profit / (loss) for the period before tax

Net Profit / (loss) for the period after tax

Total comprehensive income for the period